



Regd. & Corporate Office : 401-402, Lusa Tower
Azadpur Commercial Complex, Delhi-110 033
Telefax : + 91 1127679700-05 (6 Lines)
e mail : info@insecticidesindia.com
www.insecticidesindia.com
CIN : L65991DL1996PLC083909



insecticides
(INDIA) LIMITED

Ref: IIL/SE/2024/1709/01
Date: September 17, 2024

To,

BSE Limited (“BSE”) Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400 001 (Through BSE Listing Centre)	National Stock Exchange of India Limited (“NSE”) Exchange Plaza, C-1, Block – G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 005 (Through NEAPS)
Scrip Code: 532851	Symbol: INSECTICID

Sub.: Offer-Opening Advertisement cum Corrigendum to the Letter of Offer pertaining to Buyback of equity shares by Insecticides (India) Limited

Dear Sir / Madam,

Please find enclosed the Offer-Opening Advertisement cum Corrigendum to the Letter of Offer published in the following newspapers on Tuesday, September 17, 2024:

Name of publication	Language	Edition
Business Standard	English	All editions
Business Standard	Hindi	All editions

This will also be made available on the Company’s website at www.insecticidesindia.com.

Kindly take the above on record.

Thanking you,

Yours sincerely,
For **Insecticides (India) Limited**

Sandeep Kumar
Company Secretary & Chief Compliance Officer

Encl: As above



Cummins India Limited

Regd. Office : Cummins India Office Campus,
Tower A, 5th Floor, Survey No. 21, Balewadi,
Pune 411 045, Maharashtra, India
(CIN: L29112PN1962PLC012276)
Tel.: (020) 67067000 Fax: (020) 67067015
Website: www.cumminsindia.com
Email: cil.investors@cummins.com

Notice of Postal Ballot and E-voting Information

Notice is hereby given that in compliance with Section 110 and Section 108 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, General Circular (MCA) read dated September 25, 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) read with other relevant circulars issued in this regard and SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), Cummins India Limited (Company) is seeking consent of the Members of the Company through Postal Ballot, through remote e-voting facility only.

In compliance with the circulars, the Company has completed the dispatch of the Notice of Postal Ballot comprising of the resolution(s) along with the explanatory statement thereto on Monday, September 16, 2024, only through electronic mode on the registered email addresses of the Members of the Company, as on Friday, September 06, 2024 ("cut-off date").

The said Notice of Postal Ballot is also available on the Company's website at www.cumminsindia.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of Link Intime India Private Limited (Insta Vote), Registrar and Transfer Agent of the Company at https://instavote.linkintime.co.in.

A person, whose name is recorded in the Register of Members of the Company and/ or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date shall only be entitled to cast their vote through remote e-voting. A person who is not a member as on the cut-off date should treat the Notice for information purpose only.

Please note that, in accordance with the Circulars, printed copy of the Notice of Postal Ballot along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope will not be sent to the Members. Members are required to communicate their assent or dissent only through remote e-voting facility.

Instructions for e-voting:

The remote e-voting facility to enable the members to cast their vote in electronic mode is provided by the Company through Link Intime India Private Limited (Insta Vote), Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Company. Members may cast their votes during the remote e-voting period mentioned herein below:

Commencement of e-voting : 9:00 a.m. (IST) on
Wednesday, September 18, 2024

End of e-voting : 5:00 p.m. (IST) on
Thursday, October 17, 2024

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time. The necessary instructions for remote e-voting have been set out in the Notice of Postal Ballot.

Manner of registering e-mail address and other KYC details:

Members whose email addresses and other KYC details are not registered must follow the process mentioned below:

- Physical Holding: Send relevant documents to the RTA along-with duly filled "Form ISR 1" (please see detailed instructions in Note No. C (7) of Postal Ballot Notice regarding updation of KYC details).

- Demat Holding: By contacting respective Depository Participant ("DP") and registering e-mail address, mobile number and other KYC details in demat account, as per the process advised by the DP.

Mr. Pramodkumar Ladda (Membership No. FCS 7326 and CP No. 8006), Partner of M/s Ladda Bhutada & Associates, Company Secretaries, is appointed as the Scrutinizer to conduct the Postal Ballot through remote e-voting process in fair and transparent manner. Result of the e-voting will be declared by placing the same along with Scrutiniser's report on the Company's website at www.cumminsindia.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, within two working days from last date of remote e-voting, i.e. on or before Saturday, October 19, 2024.

In case the Members have any queries or issues regarding the e-voting facility they may refer to the frequently asked questions and e-voting manual available in Help section at https://instavote.linkintime.co.in (under help section) or can send a request at enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022 - 4918 6000. Any grievances connected with the remote e-voting may be addressed to Ms. Vinaya Joshi, Company Secretary of the Company by sending e-mail to cil.investors@cummins.com.

Individual Shareholders holding securities in demat mode, for any technical issues related to login through Depository may contact (i) NSDL by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000; (ii) CDSL by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 1800 22 55 33.

For Cummins India Limited

Vinaya A. Joshi
Company Secretary &
Compliance Officer

Place: Pune
Date: September 16, 2024

JAGSONPAL FINANCE & LEASING LIMITED

CIN: L65929DL1991PLC043182

Regd Office: C-30, Ground Floor, Friends Colony East, Srinivasapuri, South Delhi, New Delhi - 110 065;
Tel: 011-41633812 / 49025758; e-mail : jagsonpalfinance@gmail.com; website : www.jagsonpal.co.in

This advertisement is being issued by Arianth Capital Markets Limited, Manager to the Offer on behalf of Mr. Karthik Srinivasan ("Acquirer").

The dispatch of the Letter of Offer (LOF) in respect of the Open Offer to the shareholders of Jagsonpal Finance & Leasing Limited (Target Company) has been completed on September 11, 2024 to all the registered Shareholders of the Target Company whose email / postal addresses were available as per the records of the Target Company as on September 4, 2024, being the identified date, through email / Registered / Speed Post.

It is hereby notified that, Shareholders who have not received the LOF may kindly download the same from the websites of the Stock Exchanges i.e. at www.bseindia.com or from the website of SEBI at www.sebi.gov.in or contact the Manager to Offer at mbd@arihantcapital.com requesting for copy of the LOF. The open offer is scheduled to open on September 19, 2024 and close on October 3, 2024.

Corrigendum to the Letter of Offer dated September 11, 2024 :

In addition to the documents mentioned under the head "Material Documents for Inspection" on Page 25 of the LOF, the Escrow Agreement dated June 24, 2024 entered into between the Acquirer, Arianth Capital Markets Limited and Kotak Mahindra Bank Limited, the Escrow Banker, is also made available for inspection at the office of the Manager to the Offer. The same is also available to shareholders for inspection electronically. Inadvertently, this agreement was omitted to be included under the said para.

Issued by : Manager to the Offer on behalf of the Acquirer



ARIHANT capital markets ltd.
Merchant Banking Division
SEBI REGN NO.: IM1 00011070
#1011, Solitaire Corporate Park, Guru Hargovindji Road, Chakala,
Andheri (E), Mumbai - 400 093 Tel : 022-42254800/862; Fax : 022-42254880
Email: mbd@arihantcapital.com; Contact Persons: Mr Amol Kshirsagar/ Mr Satish Kumar P

Place: Mumbai
Date: September 17, 2024

JAI CORP LIMITED

Corporate Identification Number: L17120MH1985PLC036500

Registered Office: A-3, M.I.D.C. Indl. Area, Nanded-431 603, Maharashtra;

Corporate Office: #603, Embassy Centre, Backbay Reclamation, Nariman Point, Mumbai- 400 021.

Tel: 91-22-3521 5146/3139 6050; E-mail: cs@jaicorpindia.com / cs2@jaicorpindia.com;

Website: www.jaicorpindia.com

Contact Person: Mr. Ananjan Datta, Company Secretary and Compliance Officer

PUBLIC NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS OF JAI CORP LIMITED

- This advertisement ("Advertisement") is being issued by Jai Corp Limited ("Company"), to the eligible shareholders holding Equity Shares as on the Record Date (i.e. Tuesday, September 10, 2024), in regard to buyback of up to 29,44,415 (Twenty Nine Lakhs Four Thousand Four Hundred Fifteen) Fully Paid-Up Equity Shares of Face Value of ₹ 1/- Each ("Equity Shares"), on a proportionate basis, through the "tender offer" route in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 2018 as amended ("SEBI Buyback Regulations") using Stock Exchange Mechanism, at a price of ₹ 400/- (Rupees Four Hundred Only) per Equity Share, payable in cash, for an aggregate amount not exceeding ₹ 1,17,77,66,000/- (Rupees One Hundred Seventeen Crores Seventy Seven Lakhs Sixty Six Thousand Only) (excluding transaction costs) ("Buyback"). The Public Announcement dated Friday, August 30, 2024 in regard to the Buyback was published on Monday, September 02, 2024.
- This is to inform that as per the notification of Maharashtra General Administration Department dated September 13, 2024 and RBI notification dated September 14, 2024 regarding change in Holiday on account of Eid - E-Milad and in partial modification of Exchange notice no 20231226-43 and 20231226-44 dated December 26, 2023, trading members has been informed by BSE Limited, that there will be change in trading holiday for Currency Derivatives Segment (Covering the Currency Derivatives products and Interest Rate Derivatives products), NDS-RST and Tri Party Repo in September 2024 as follows.
Current Trading Holiday : September 16, 2024
Revised Trading Holiday : September 18, 2024
Apart from the above current changes the tendering will be available on September 17, 2024, September 19, 2024 and September 20, 2024.
- In this regard, public shareholders of the Jai Corp Limited, be informed that that trading of Offer To Buy section - Acquisition window - Buyback of Jai Corp Limited will happen on September 16, 2024 for tendering of equity shares and September 18, 2024 will be considered as trading holiday.

- In terms of Regulation 24(i) (a) of the Buyback Regulations, the Board accepts full and final responsibility for all the information contained in this advertisement and confirm that this advertisement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information. Capitalised term used but not defined in this advertisement shall have the meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer.

MANAGER TO THE BUYBACK

Navigant Corporate Advisors Limited
Address: 804, Meadows, Sahar Plaza Complex, J B Nagar,
Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai-400 059
Tel No.: +91-22-4120 4837 / 4973 5078
Email Id: navigant@navigantcorp.com
Investor Grievance Email: info@navigantcorp.com
Website: www.navigantcorp.com
SEBI Registration Number: INM000012243
Contact Person: Mr. Sarthak Vijiani
CIN: L67190MH2012PLC231304

REGISTRAR TO THE BUYBACK

KFin Technologies Limited
Address: Selenium, Tower-B, Plot No 31 & 32 Gachibowli,
Financial District Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad,
Telangana - 500032
Tel. no.: +91 40 6716 2222;
Fax no.: +91 40 6716 1563
Toll Free number: 18003094001
Contact person: M Murali Krishna
Email: jaicorp.buyback@kfintech.com
Investor Grievance mail: elinward.ris@kfintech.com
Website: www.kfintech.com
SEBI Registration Number: INR000000221
CIN: L72400TG2017PLC117649

For and on behalf of the Board of Directors of Jai Corp Limited

Sd/- Sd/- Sd/-
Gaurav Jain Dinesh D. Palwal Ananjan Datta
(Managing Director) (Whole Time Director) (Company Secretary & Compliance Officer)
DIN: 00077770 DIN: 00524064 Mem. No. FCS 4668

Date : September 16, 2024
Place : Mumbai

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of offer dated 16th August, 2024 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").



A F ENTERPRISES LIMITED

(CIN- L18100DL1983PLC016354)

Our Company was originally incorporated as A F Investment Private Limited a private limited company vide a certificate of incorporation dated August 18, 1983, issued by the Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana, under the provisions of the Companies Act, 1956. Subsequently, our Company was converted into a public limited company, following which the name was changed to "AF Investment Limited" and a fresh certificate of incorporation was issued on November 24, 1983 by the Registrar of Companies, Delhi & Haryana. Subsequently, the name of our Company was changed to "A F Enterprises Limited" and a fresh certificate of incorporation consequent on change of name dated May 14, 1991, was issued by the Registrar of Companies, Delhi & Haryana. For further details in relation to our Company, please refer to the section titled "General Information" beginning on page 55 of the Letter of Offer.

Registered Office: 15/18 Basement B Portion, West Patel Nagar, Central Delhi, New Delhi, India, 110008
Corporate Office cum Factory: Plot No. 8, Sector-5, Main Mathura Road, Ballabgarh Faridabad, Haryana-121006
Tel: +91-7428399452; Email: cs@afent.com; Website: www.afent.com; Contact Person: Ms. Neha Srivastava, Company Secretary & Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: M/S. RMS MOSQUITO PRIVATE LIMITED

ISSUE OF UPTO 2,11,70,454 PARTLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS.10 EACH ("EQUITY SHARES") OF A F ENTERPRISES LIMITED ("AFEL" OR THE "COMPANY") OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 10 PER EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT NOT EXCEEDING RS. 2,117.05 LACS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON RIGHTS BASIS IN THE RATIO OF 3 (THREE) PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES FOR EVERY 2 (TWO) FULLY PAID UP EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. 16th AUGUST, 2024. (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE IS 1 TIME OF FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 151 OF THE LETTER OF OFFER.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all its shareholders and investors for their response to the Company's Rights Issue of Equity Shares, which opened for subscription on Monday, August 26, 2024 and closed on Tuesday, September 03, 2024 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Wednesday, August 28, 2024. Out of the total 1588 Applications for 4,33,54,724 Rights Equity Shares, 503 Applications for 13,02,316 Rights Equity Shares were rejected on grounds of "technical reasons" as disclosed in the Letter of Offer. The total numbers of valid applications were 1,085 for 4,19,40,814 Rights Equity Shares, which was 198.11% of the number of Rights Equity Shares allotted under the Issue. Our Company in consultation with Registrar to the Issue and BSE Limited, the Designated Stock Exchange on Thursday, September 05, 2024, approved the allotment of 2,11,70,454 partly paid-up Rights Equity Shares to the successful applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid applications have been considered for allotment.

1. The break-up of valid applications received through ASBA (after Technical Rejections) is given below:

Applicants	Number of valid applications received	Number of Rights Equity Shares Allotted- against Entitlement (A)	Number of Rights Equity Shares Allotted - Against valid additional shares (including fractional shares accepted) (B)	Number of Rights Equity Shares Allotted - (A+B)
Eligible Equity Shareholders	937	65,06,755	1,31,67,719	1,96,74,474
Renounees	148	14,95,980	0	14,95,980
Total	1,085	80,02,735	1,31,67,719	2,11,70,454

2. Information regarding applications received:

Category	Applications Received		Equity Shares Applied for		Equity Shares Allotted	
	Number	%	Number	Value (In Rs.)	Number	Value (In Rs.)
Eligible Equity Shareholders	937	86.36%	3,21,26,559	8,03,16,397.50	1,96,74,474	4,91,86,185.00
Renounees	148	13.64%	98,14,255	2,45,35,637.50	14,95,980	37,39,950.00
Total	1,085	100.00%	4,19,40,814	10,48,52,035.00	2,11,70,454	5,29,26,135.00

Intimations for Allotment / Refund / Rejections Cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, has been completed on September 12, 2024. The instructions to (i) Self Certified Syndicate Bank ("SCSBs") for unblocking of funds in case of ASBA applications were given on September 05, 2024. The listing application was executed with BSE on September 09, 2024. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees has been completed with NSDL and CDSL on September 13, 2024 and September 11, 2024 respectively. No physical shares were allotted in the Rights Issue. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE, the Equity Shares allotted in the Issue is expected to commence trading on BSE on or about September 18, 2024. In accordance with SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement has been sent to NSDL & CDSL on September 12, 2024.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: The Draft Letter of Offer has not been filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size of issue is less than Rs. 5000.00 lakhs. The present Issue being of less than Rs. 5,000 lakhs, our Company is in compliance with first proviso to Regulation 3 of the SEBI ICDR Regulations and our Company shall file the copy of the Letter of Offer prepared in accordance with the SEBI ICDR Regulations with SEBI for information and dissemination on the website of SEBI i.e. www.sebi.gov.in.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" beginning on page 145 of the LOF.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

REGISTRAR TO THE ISSUE

SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
D 153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi 110 020
Tel No. +91 011-26812682; Fax No.: +91 011-26812682
Website: www.skylinert.com
E-mail ID: admin@skylinert.com/info@skylinert.com
Contact Person: Mr. Anuj Rana
SEBI Registration No: INR000003241

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

A F ENTERPRISES LIMITED
15/18 Basement B Portion, West Patel Nagar, Central Delhi,
New Delhi, India, 110008
Email: cs@afent.com
Website: www.afent.com
Tel: +91-7428399452
Contact Person: Ms. Neha Srivastava

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue/post-issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors.

For A F Enterprises Limited
On Behalf of the Board of Directors

Sd/- Sd/- Sd/-
Hari Chand Aggarwal Rajesh Kumar Aggarwal Sandeep Kumar
Chairman Managing Director Company Secretary and
(DIN: 00577015) (DIN: 00576872) Chief Compliance Officer
(ACS: 29777)

Place: New Delhi
Date: September 16, 2024

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer dated August 16, 2024 with the Securities and Exchange Board of India and BSE. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e., BSE at www.bseindia.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 24 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.



Cummins India Limited

Regd. Office : Cummins India Office Campus,
Tower A, 5th Floor, Survey No. 21, Balewadi,
Pune 411 045, Maharashtra, India
(CIN: L29112PN1962PLC012276)
Tel.: (020) 67067000 Fax: (020) 67067015
Website: www.cumminsindia.com
Email: cil.investors@cummins.com

PUBLIC NOTICE TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to inform the General Public that following share certificates of Cummins India Limited, having Registered Office at Cummins India Office Campus, Tower A, 5th Floor, Survey No. 21, Balewadi, Pune 411045, and registered in the name of the following Shareholder(s) have been lost by them.

Folio No.	Name of the Shareholder	Certificate No.	Distinctive Nos.		No. of Shares (Fv. Rs. 2/- each)
			To	From	
V017490	VAIJU R. KHODE	5292	156778396	156778770	375
V017490	VAIJU R. KHODE	8845	240204759	240204908	150

The Public is hereby cautioned/warned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificates. Any person who has any claim in respect of the said share certificates should lodge such claim with the Company within 7 days of publication of this notice after which no claim will be entertained, and the Company shall proceed to issue Duplicate Share Certificates.

For Cummins India Limited

Place: Pune
Date: September 16, 2024
Vinaya A. Joshi
Company Secretary & Compliance Officer

OFFER OPENING ADVERTISEMENT CUM CORRIGENDUM TO THE LETTER OF OFFER FOR THE BUY BACK OF EQUITY SHARES THROUGH TENDER OFFER UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUYBACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, ("SEBI BUYBACK REGULATIONS") AS AMENDED FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF



insecticides
(INDIA) LIMITED



CIN: L65991DL1996PLC083909

Registered Office: 401-402, Lusa Tower, Azadpur Commercial Complex, Delhi -110033,

Tel/Fax: 011-27679700-05 Website: www.insecticidesindia.com,

E-mail: investor@insecticidesindia.com

Contact Person: Sandeep Kumar, Company Secretary and Chief Compliance Officer

BUYBACK OF UPTO 500,000 (FIVE LAKH) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES, OF FACE VALUE OF RS. 10/- (RUPEES TEN) EACH ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING 1.69% OF THE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AS ON MARCH 31, 2024 ("BUYBACK"). THE BUYBACK WILL BE UNDERTAKEN ON A PROPORTIONATE BASIS, FROM THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES AS ON SEPTEMBER 11, 2024 ("RECORD DATE"), BY WAY OF A TENDER OFFER THROUGH THE STOCK EXCHANGE MECHANISM ("TENDER OFFER"), FOR CASH AT A PRICE OF RS. 1,000 (RUPEES ONE THOUSAND ONLY) ("BUYBACK PRICE") PER EQUITY SHARE FOR AN AGGREGATE AMOUNT OF UPTO RS. 50 CRORES (RUPEES FIFTY CRORES ONLY) ("BUYBACK SIZE").

This Offer Opening Advertisement cum Corrigendum to the Letter of Offer is to be read together with:

- the public announcement in connection with the Buyback published on September 03, 2024 in the following newspapers: Business Standard (English & Hindi national daily) ("Public Announcement"); and;
- the letter of offer dated September 13, 2024 in connection with the Buyback ("Letter of Offer")

Capitalised terms used but not defined in this Offer Opening Advertisement cum Corrigendum to the Letter of Offer shall have the same meaning assigned to such terms in the Letter of Offer.

The dispatch of the Letter of Offer, Tender form of Acceptance-cum-Acknowledgement along with SH-4 Form to all the Eligible Shareholders of the Company holding Equity Shares on the Record Date i.e. Wednesday, September 11, 2024 has been completed by September 13, 2024 through electronic mode to the shareholders whose e-mail ids are available with the Depositories / Company in accordance with the Buyback Regulations and such other circulars or notifications, as may be applicable. Further, if the Company receives a request from any Eligible Shareholder for a physical copy of Letter of Offer, the same shall be provided. Please refer to clause 20 of the Letter of Offer.

Record Date and Ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category

The Buyback Entitlement ratio for the shareholders is as below:

Category of Shareholders	Ratio of Buyback
Reserved category for Small Shareholders	7 Equity Shares for every 81 Equity Shares held on the Record Date
General category for all other Eligible Shareholders	5 Equity Shares for every 338 Equity Shares held on the Record Date

For details, refer to "Record Date and Ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category" on page 29-30 of the Letter of Offer.

Instruction to Eligible Shareholders

All the Eligible Shareholders of the Company, holding shares in dematerialized and physical form, registered or unregistered are eligible to participate in this Buyback at any time during the period from Buyback Opening Date to Buyback Closing Date ("Tendering Period") for this Buy-Back:

- In case the Shares

एनपीएस-वात्सल्य योजना शुरू होगी

हर्ष कुमार
नई दिल्ली, 16 सितंबर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली में 18 सितंबर को एनपीएस-वात्सल्य योजना की शुरुआत करेंगी। यह जानकारी सूत्रों ने दी। इस कार्यक्रम में पेंशन

निधि नियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफ आर डीए) के चेयरमैन दीपक मोहंती, वित्त राज्य मंत्री प्रकृज चोधरी व मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण और वित्तीय सेवा विभाग के सचिव नागराज महिराला भी शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई में बजट भाषण के दौरान योजना की घोषणा की थी।

OFFER OPENING ADVERTISEMENT CUM CORRIGENDUM TO THE LETTER OF OFFER FOR THE BUY BACK OF EQUITY SHARES THROUGH TENDER OFFER UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUYBACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, ("SEBI BUYBACK REGULATIONS") AS AMENDED FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF



insecticides
(INDIA) LIMITED



CIN: L65991DL1996PLC083909

Registered Office: 401-402, Lusa Tower, Azadpur Commercial Complex, Delhi -110033,
Tele/Fax: 011-27679700-05 Website: www.insecticidesindia.com,
E-mail: investor@insecticidesindia.com

Contact Person: Sandeep Kumar, Company Secretary and Chief Compliance Officer

BUYBACK OF UPTO 500,000 (FIVE LAKH) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES, OF FACE VALUE OF RS. 10/- (RUPEES TEN) EACH ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING 1.69% OF THE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AS ON MARCH 31, 2024 ("BUYBACK"). THE BUYBACK WILL BE UNDERTAKEN ON A PROPORTIONATE BASIS, FROM THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES AS ON SEPTEMBER 11, 2024 ("RECORD DATE"), BY WAY OF A TENDER OFFER THROUGH THE STOCK EXCHANGE MECHANISM ("TENDER OFFER"), FOR CASH AT A PRICE OF RS. 1,000 (RUPEES ONE THOUSAND ONLY) ("BUYBACK PRICE") PER EQUITY SHARE FOR AN AGGREGATE AMOUNT OF UPTO RS. 50 CRORES (RUPEES FIFTY CRORES ONLY) ("BUYBACK SIZE").

This Offer Opening Advertisement cum Corrigendum to the Letter of Offer is to be read together with:

- the public announcement in connection with the Buyback published on September 03, 2024 in the following newspapers: Business Standard (English & Hindi national daily) ("Public Announcement"); and;
- the letter of offer dated September 13, 2024 in connection with the Buyback ("Letter of Offer")

Capitalised terms used but not defined in this Offer Opening Advertisement cum Corrigendum to the Letter of Offer shall have the same meaning assigned to such terms in the Letter of Offer.

The dispatch of the Letter of Offer, Tender form of Acceptance-cum-Acknowledgement along with SH-4 Form to all the Eligible Shareholders of the Company holding Equity Shares on the Record Date i.e. Wednesday, September 11, 2024 has been completed by September 13, 2024 through electronic mode to the shareholders whose e-mail ids are available with the Depositories / Company in accordance with the Buyback Regulations and such other circulars or notifications, as may be applicable. Further, if the Company receives a request from any Eligible Shareholder for a physical copy of Letter of Offer, the same shall be provided. Please refer to clause 20 of the Letter of Offer.

Record Date and Ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category

The Buyback Entitlement ratio for the shareholders is as below:

Category of Shareholders	Ratio of Buyback
Reserved category for Small Shareholders	7 Equity Shares for every 81 Equity Shares held on the Record Date
General category for all other Eligible Shareholders	5 Equity Shares for every 338 Equity Shares held on the Record Date

For details, refer to "Record Date and Ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category" on page 29-30 of the Letter of Offer.

Instruction to Eligible Shareholders

All the Eligible Shareholders of the Company, holding shares in dematerialized and physical form, registered or unregistered are eligible to participate in this Buyback at any time during the period from Buyback Opening Date to Buyback Closing Date ("Tendering Period") for this Buy-Back:

- In case the Shares are held in Dematerialized Form: Eligible Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic form under the Buyback would have to do so through their respective Seller Member by indicating to their broker the details of Equity Shares they intend to tender under the Buyback as per the procedure specified in Clause 20.23 on page 35 of the Letter of Offer.
- In case the Shares are held in Physical Form: Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Buyback through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in Clause 20.24 on page 36-37 of the Letter of Offer.
- In case of non-receipt of the Letter of Offer: The Eligible Shareholder may tender Equity Shares under the Offer in terms of the procedure specified in Clause 20.27 on page 39-40 of the Letter of Offer.

Further, Eligible Shareholders are required to refer to Clause 20 of the Letter of Offer ("Procedure for Tender Offer and Settlement") in relation to the detailed procedure for tendering their Equity Shares in the Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein

ELIGIBLE SHAREHOLDERS CAN ALSO CHECK THEIR ENTITLEMENT ON THE WEBSITE OF THE REGISTRAR TO THE BUYBACK BY FOLLOWING THE STEPS GIVEN BELOW:

- Click on <https://buyback.alankit.com>
- Enter DPID-CLID/FOLIO NO., as applicable;
- Click on 'Download Filled in Tender Form';
- The Pre-Filled Entitlement / Tender Form will be downloaded.

Eligible Shareholders have to ensure that their bid is entered by their respective Seller Member in the electronic platform to be made available by NSE before the Buyback Closing Date.

SCHEDULE OF ACTIVITIES

Particulars	Date	Day
Date of Opening of the Buyback*	September 17, 2024	Tuesday
Date of Closing of the Buyback	September 24, 2024	Tuesday
Last date of receipt of the completed Tender Forms and other specified documents by the Registrar to the Buyback	September 24, 2024	Tuesday
Last date for settlement of bids on the Stock Exchange	October 01, 2024	Tuesday

*As disclosed in the Letter of Offer, the offer period was set to commence on Wednesday, September 18, 2024 and close on Tuesday, September 24, 2024. In this connection, Wednesday, September 18, 2024 has been declared as a public holiday in Maharashtra for Id-E-Milad and the earlier public holiday falling on September 16, 2024 was cancelled. Accordingly, in compliance with the SEBI Buyback Regulations, the Date of Opening of the Buyback has now been prepone from "Wednesday, September 18, 2024" to "Tuesday, September 17, 2024".

Further, references to the Buyback Opening Date, on the cover page of the Letter of Offer and Tender form (i) For eligible shareholders holding shares in dematerialized form; and (ii) For eligible shareholders holding shares in physical form must be read as "Tuesday, September 17, 2024".

Except for the "Date of Opening of the Buyback", as mentioned above, all other dates in the Schedule of Activities shall remain same.

The Equity Shareholders of the Company are requested to take note of the amendment to the Schedule of Activities with respect to the Date of Opening of Buyback in the Letter of Offer, as detailed above.

Except as detailed in this Offer Opening Advertisement cum Corrigendum to the Letter of Offer, the other contents and terms in the Letter of Offer remain unchanged. The Letter of Offer and Tender Form (the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement) and the Offer Opening Advertisement cum Corrigendum to the Letter of Offer is available on the website of the Company (www.insecticidesindia.com), SEBI (www.sebi.gov.in), the Registrar to the Buyback (<https://buyback.alankit.com>), the Manager to the Buyback (www.sundaeindia.com) and Stock Exchanges, BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com). In case of non-receipt of the Letter of Offer, the Eligible Shareholders, if they so desire, may download the Letter of Offer and Tender Form of Acceptance-cum-Acknowledgement from the websites indicated above.

In terms of Regulation 24(i)(a) of the SEBI Buyback Regulations, the Board Directors accepts responsibility for all the information contained in this Offer Opening Advertisement cum Corrigendum to the Letter of Offer and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

ISSUED FOR AND ON BEHALF OF THE COMPANY BY THE MANAGER TO THE BUYBACK

SUNDAE

Sundae Capital Advisors Private Limited
404, 4th Floor, Vaibhav Chambers, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai, 400 051, Maharashtra, India
Tel. No. : +91 22 4515 5887, Email: insecticides.buyback@sundaeindia.com
Investor Grievance e-mail id: grievances.mb@sundaeindia.com
Website: www.sundaeindia.com
SEBI Regn. No.: INM00012494
Contact Person: Anchal Lohia / Rajiv Sharma

For and on behalf of the Board of Directors of
Insecticides (India) Limited

Sd/- Hari Chand Aggarwal
Chairman
(DIN: 00577015)

Sd/- Rajesh Kumar Aggarwal
Managing Director
(DIN: 00576872)

Sd/- Sandeep Kumar
Company Secretary and
Chief Compliance Officer
(ACS: 29777)

Place: New Delhi
Date: September 16, 2024

महंगाई के रुख पर निर्भर होगा दर में बदलाव

अंजलि कुमारी
मुंबई, 16 सितंबर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास

ने कहा कि ब्याज दर में बदलाव भविष्य में मुद्रास्फीति के रुख पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति में मासिक आधार पर नरमी अथवा वृद्धि पर हमारी नजर बनी रहेगी। मुद्रास्फीति के रुख पर दूरदर्शी नजरिये के साथ बेहद सावधानी से गौर किया जाएगा और उसी आधार पर निर्णय लिए जाएंगे।

सीएनबीसी से बातचीत में जब पूछा गया कि केंद्रीय बैंक दरों में कटौती कब शुरू करेगा, तो दास ने कहा, 'मौजूदा हालात में यह कोई सवाल नहीं है। जुलाई में मुद्रास्फीति करीब 3.6 फीसदी पर आ गई जो संशोधित आंकड़ा है और अगस्त में वह 3.7 फीसदी रही। इसलिए यह उतना महत्वपूर्ण बात नहीं है कि मुद्रास्फीति फिलहाल कैसी है, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले छह महीनों या अगले एक साल में वह कैसी रहेगी। इसलिए, मैं एक कदम पीछे हटते हुए बेहद सावधानी से गौर करना चाहूंगा कि भविष्य में मुद्रास्फीति और वृद्धि दर का रुख क्या है। हम उसी आधार पर कोई निर्णय लेंगे।'

मई 2022 और फरवरी 2023 के बीच रीपो दर में 250 आधार अंकों की वृद्धि करने के बाद छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने दर और रुख दोनों पर यथास्थिति बनाए रखी है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का गठन किया जाना है, क्योंकि मौजूदा बाहरी सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसलिए समिति में तीन नए बाहरी सदस्यों को शामिल किया जाएगा। समिति में चर्चा के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

दास ने कहा कि सभी क्षेत्रों में भारत की जीडीपी वृद्धि की रफ्तार तेज है। हालांकि चुनावी मौसम के कारण केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर

सरकारी खर्च में अस्थायी नरमी आई है। मगर आगे उसमें तेजी आने की उम्मीद है और बजट के जरिये आवंटित रकम को खर्च किया जा सकेगा। आरबीआई पूरी तरह आश्वस्त है कि भारत इस साल 7.2 फीसदी की जीडीपी वृद्धि हासिल करेगा और लंबी अवधि में वृद्धि दर 7.5 फीसदी से 8 फीसदी होगी।

दास ने कहा कि ब्याज दर के बारे में कुछ भी अनुमान जाहिर करना जोखिम भरा हो सकता है। उन्होंने एक नई मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का गठन किया जाना है, क्योंकि मौजूदा बाहरी सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसलिए समिति में तीन नए बाहरी सदस्यों को शामिल किया जाएगा। समिति में चर्चा के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

दास ने कहा कि सभी क्षेत्रों में भारत की जीडीपी वृद्धि की रफ्तार तेज है। हालांकि चुनावी मौसम के कारण केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारी खर्च में अस्थायी नरमी आई है। मगर आगे उसमें तेजी आने की उम्मीद है और बजट के जरिये आवंटित रकम को खर्च किया जा सकेगा। आरबीआई पूरी तरह आश्वस्त है कि भारत इस साल 7.2 फीसदी की जीडीपी वृद्धि हासिल करेगा और लंबी अवधि में वृद्धि दर 7.5 फीसदी से 8 फीसदी होगी।

निकोबार के लिए सभी जरूरी मंजूरियां मिलीं

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर प्रस्तावित 41,000 करोड़ रुपये की अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह परियोजना के लिए सभी जरूरी मंजूरियां हासिल कर ली गई हैं।

सोनोवाल ने संवाददाताओं से कहा कि इस विशाल परियोजना का विरोध 'निहित स्वार्थ' की उपज है।

ग्रेट निकोबार ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को सरकार अंतिम रूप देने में जुटी है। अगले कुछ महीनों में परियोजना के कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है।

बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप पर प्रस्तावित यह परियोजना पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेकर जांच के दायरे में है।

सरकार ने परियोजना के लिए सभी जरूरी मंजूरियां हासिल कर ली हैं। पांच-छह कंपनियों ने

भारत के जहाजरानी उद्योग में जापान, कोरिया की रुचि

भारत के जहाज निर्माण पहल के प्रति संभावित पूंजी निवेश व आकर्षण का प्रमाण है। मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तटीय राज्यों में कई जहाज निर्माण केंद्र स्थापित करने की शुरुआत की घोषणा की थी। पोत मंत्रालय की हाल की एक प्रस्तुति के अनुसार फिलहाल पानी के जहाज बनाने में दुनिया में भारत का स्थान 20वां है और इसकी वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी महज 0.06 फीसदी है। इसके विपरीत चीन, दक्षिण कोरिया और जापान का 85 फीसदी हिस्सेदारी के साथ वैश्विक बाजार में दबदबा है। मंत्रालय का यह स्पष्ट नजरिया है कि चरणबद्ध ढंग से जहाजरानी के केंद्र विकसित किए जाएं।

भारत के जहाज निर्माण पहल के प्रति संभावित पूंजी निवेश व आकर्षण का प्रमाण है। मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तटीय राज्यों में कई जहाज निर्माण केंद्र स्थापित करने की शुरुआत की घोषणा की थी। पोत मंत्रालय की हाल की एक प्रस्तुति के अनुसार फिलहाल पानी के जहाज बनाने में दुनिया में भारत का स्थान 20वां है और इसकी वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी महज 0.06 फीसदी है। इसके विपरीत चीन, दक्षिण कोरिया और जापान का 85 फीसदी हिस्सेदारी के साथ वैश्विक बाजार में दबदबा है। मंत्रालय का यह स्पष्ट नजरिया है कि चरणबद्ध ढंग से जहाजरानी के केंद्र विकसित किए जाएं।

भारत के जहाज निर्माण पहल के प्रति संभावित पूंजी निवेश व आकर्षण का प्रमाण है। मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तटीय राज्यों में कई जहाज निर्माण केंद्र स्थापित करने की शुरुआत की घोषणा की थी। पोत मंत्रालय की हाल की एक प्रस्तुति के अनुसार फिलहाल पानी के जहाज बनाने में दुनिया में भारत का स्थान 20वां है और इसकी वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी महज 0.06 फीसदी है। इसके विपरीत चीन, दक्षिण कोरिया और जापान का 85 फीसदी हिस्सेदारी के साथ वैश्विक बाजार में दबदबा है। मंत्रालय का यह स्पष्ट नजरिया है कि चरणबद्ध ढंग से जहाजरानी के केंद्र विकसित किए जाएं।

भारत के जहाज निर्माण पहल के प्रति संभावित पूंजी निवेश व आकर्षण का प्रमाण है। मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तटीय राज्यों में कई जहाज निर्माण केंद्र स्थापित करने की शुरुआत की घोषणा की थी। पोत मंत्रालय की हाल की एक प्रस्तुति के अनुसार फिलहाल पानी के जहाज बनाने में दुनिया में भारत का स्थान 20वां है और इसकी वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी महज 0.06 फीसदी है। इसके विपरीत चीन, दक्षिण कोरिया और जापान का 85 फीसदी हिस्सेदारी के साथ वैश्विक बाजार में दबदबा है। मंत्रालय का यह स्पष्ट नजरिया है कि चरणबद्ध ढंग से जहाजरानी के केंद्र विकसित किए जाएं।



दूरदर्शी नजरिये के साथ सावधानी

रुपये की मजबूती मजबूत बुनियादी बातों से प्रेरित है, कृत्रिम हस्तक्षेप से नहीं

रिजर्व बैंक आश्वस्त है कि भारत इस साल 7.2 फीसदी की जीडीपी वृद्धि हासिल करेगा और लंबी अवधि में वृद्धि दर 7.5 फीसदी से 8 फीसदी होगी

कोई भी अनुमान जाहिर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बाजार को सकारात्मक परिणाम के बजाय गलत दिशा मिल सकती है। विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई के सक्रिय हस्तक्षेप के बारे में दास ने कहा कि रिजर्व बैंक का उद्देश्य रुपये में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद नहीं होता है। उन्होंने कहा कि भारत का वृद्ध आर्थिक एवं वित्तीय बुनियादी बातें पिछले वर्षों के मुकामलें काफी मजबूत हैं। इससे रुपये को स्थायिक और मजबूत मिलती है और किसी कृत्रिम हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

दास ने कहा कि इतनी अधिक अनिश्चितता के साथ विभिन्न देशों की अलग-अलग मौद्रिक नीतियां और वृद्धि परिदृश्य स्थिति को अधिक जटिल बनाते हैं। ऐसे में कोई भी अनुमान बाजारों को गुमराह कर सकता है। यदि परिस्थितियां अप्रत्याशित रूप से बदलती हैं तो

कोई भी अनुमान जाहिर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बाजार को सकारात्मक परिणाम के बजाय गलत दिशा मिल सकती है। विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई के सक्रिय हस्तक्षेप के बारे में दास ने कहा कि रिजर्व बैंक का उद्देश्य रुपये में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद नहीं होता है। उन्होंने कहा कि भारत का वृद्ध आर्थिक एवं वित्तीय बुनियादी बातें पिछले वर्षों के मुकामलें काफी मजबूत हैं। इससे रुपये को स्थायिक और मजबूत मिलती है और किसी कृत्रिम हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

दास ने कहा कि इतनी अधिक अनिश्चितता के साथ विभिन्न देशों की अलग-अलग मौद्रिक नीतियां और वृद्धि परिदृश्य स्थिति को अधिक जटिल बनाते हैं। ऐसे में कोई भी अनुमान बाजारों को गुमराह कर सकता है। यदि परिस्थितियां अप्रत्याशित रूप से बदलती हैं तो



अजिंक्य कांवले
पुणे, 16 सितंबर

तीन साल पहले स्थापना से लेकर मार्च 2024 तक अकाउंट एग्जीग्रेटर (एए) प्रेमवर्क के जरिये 42,300 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। यह जानकारी इस क्षेत्र के लिए बने उद्योग संगठन सहमति ने दी।

इस अवधि के दौरान एए प्लेटफॉर्म के जरिये कुल 42.2 लाख ऋण वितरित किए गए थे। इस प्रेमवर्क से वितरित किए गए ऋणों का औसत आकार 1,00,237 रुपये था। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 24 की दूसरी छमाही में कुल 21.2 लाख ऋण वितरित किए गए थे और इनका मूल्य 22,100 करोड़ रुपये था। यह एए प्रेमवर्क की पूरे जीवनवधि में वितरित मूल्य और संख्या का करीब आधा है। ऋण देने वाली कंपनियों प्राहकों को कर्ज देने के लिए एए प्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसके तहत प्राहकों की ऑनबोर्डिंग, अंडरराइटिंग और निगरानी की सुविधा दी जाती है।

एए प्रेमवर्क से 42 हजार करोड़ का ऋण वितरण

अजिंक्य कांवले
पुणे, 16 सितंबर

तीन साल पहले स्थापना से लेकर मार्च 2024 तक अकाउंट एग्जीग्रेटर (एए) प्रेमवर्क के जरिये 42,300 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। यह जानकारी इस क्षेत्र के लिए बने उद्योग संगठन सहमति ने दी।

इस अवधि के दौरान एए प्लेटफॉर्म के जरिये कुल 42.2 लाख ऋण वितरित किए गए थे। इस प्रेमवर्क से वितरित किए गए ऋणों का औसत आकार 1,00,237 रुपये था। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 24 की दूसरी छमाही में कुल 21.2 लाख ऋण वितरित किए गए थे और इनका मूल्य 22,100 करोड़ रुपये था। यह एए प्रेमवर्क की पूरे जीवनवधि में वितरित मूल्य और संख्या का करीब आधा है। ऋण देने वाली कंपनियों प्राहकों को कर्ज देने के लिए एए प्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसके तहत प्राहकों की ऑनबोर्डिंग, अंडरराइटिंग और निगरानी की सुविधा दी जाती है।

एए प्रेमवर्क से 42 हजार करोड़ का ऋण वितरण

किसानों की जरूरतों के अनुकूल धन मुहैया हो

सुब्रत पांडा
मुंबई, 16 सितंबर

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन ने सोमवार को कहा कि किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पारंपरिक ऋण देने के तरीकों की अपनी सीमाएं हैं। पारंपरिक तौर पर ऋण मौसम विशेष में दिया जाता है और इसके फायदे आमतौर पर लंबित या कम होते हैं। लिहाजा किसानों के लिए लचीले और उनकी जरूरतों के अनुकूल नवोन्मेषी वित्तीय तरीकों की जरूरत है। इसके अलावा फसल बीमा भी मौसम की अनिश्चितता से संबंधित जोखिम को कम करने में कारगर हो सकती है।

स्वामीनाथन ने इंटरनैशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस में कहा, 'टिकाऊ बदलाव के लिए जरूरी पूंजी मुहैया कराना आवश्यक है और इसके लिए मिश्रित मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें सार्वजनिक कोष का इस्तेमाल निजी निवेश बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इससे न केवल विभिन्न स्रोतों से संसाधन जुटाए जा सकते हैं बल्कि जोखिम व रिटर्न भी ज्यादा न्यायसंगत तरीके से बांटा जा सकता है।' उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 24 में कृषि को दी जाने वाली संस्थागत उधारी सर्वकालिक उच्चतम स्तर 25.10 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई। करीब 7.4 करोड़ सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड विशेषतौर पर अल्पावधि की जरूरतों के लिए ऋण मुहैया करवाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस क्रम में समय विशेष व लचीले ढंग से ऋण मुहैया करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि, 'हालांकि ऋण तक पहुंच बनाने में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना महत्वपूर्ण मसला बना हुआ है।' यदि यह सुनिश्चित हो जाता है कि सभी स्थानों के किसानों

को समय पर व पर्याप्त ऋण मुहैया करवाया जाता है तो कृषि में हम सततता और विषमता की चुनौतियों को बेहतर ढंग से हल कर सकेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि टिकाऊ तरीकों जैसे ऑर्गेनिक खेती, जलवायु परिवर्तन से निपटने की स्मार्ट तकनीकों और आधुनिक सिंचाई प्रणालियां महंगी हो सकती हैं लेकिन इनसे दीर्घकालिक फायदे हो सकते हैं। इन चिरस्थायी तरीकों से उत्पादन सुधरेगा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा और पर्यावरण का जिम्मेदाराना ढंग से संरक्षण हो सकेगा। उन्होंने कहा, 'किफायती वित्तीय विकल्पों तक पहुंचने के बिना चिरस्थायी कृषि के तरीकों को अपनाते हुए किसानों को लक्ष्य मिलेगा।' उन्होंने कहा कि सतत तरीके से धन जुटाने से न केवल पर्यावरण अनुकूल तरीकों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि सबसे ज्यादा जरूरतमंद किसानों तक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होना सुनिश्चित हो पाएगा। इससे किसानों तक न्यायसंगत तरीके से साधन, तकनीक और जानकारी की पहुंच हो सकेगी।

इसके अलावा स्वामीनाथन ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए दो महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करना अनिवार्य होगा।

स्वामीनाथन जानकीरमन

डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक

को समय पर व पर्याप्त ऋण मुहैया करवाया जाता है तो कृषि में हम सततता और विषमता की चुनौतियों को बेहतर ढंग से हल कर सकेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि टिकाऊ तरीकों जैसे ऑर्गेनिक खेती, जलवायु परिवर्तन से निपटने की स्मार्ट तकनीकों और आधुनिक सिंचाई प्रणालियां महंगी हो सकती हैं लेकिन इनसे दीर्घकालिक फायदे हो सकते हैं। इन चिरस्थायी तरीकों से उत्पादन सुधरेगा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा और पर्यावरण का जिम्मेदाराना ढंग से संरक्षण हो सकेगा। उन्होंने कहा, 'किफायती वित्तीय विकल्पों तक पहुंचने के बिना चिरस्थायी कृषि के तरीकों को अपनाते हुए किसानों को लक्ष्य मिलेगा।' उन्होंने कहा कि सतत तरीके से धन जुटाने से न केवल पर्यावरण अनुकूल तरीकों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि सबसे ज्यादा जरूरतमंद किसानों तक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होना सुनिश्चित हो पाएगा। इससे किसानों तक न्यायसंगत तरीके से साधन, तकनीक और जानकारी की पहुंच हो सकेगी।

इसके अलावा स्वामीनाथन ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए दो महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करना अनिवार्य होगा।

स्वामीनाथन जानकीरमन

डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक

एए प्रेमवर्क से 42 हजार करोड़ का ऋण वितरण

अजिंक्य कांवले
पुणे, 16 सितंबर

तीन साल पहले स्थापना से लेकर मार्च 2024 तक अकाउंट एग्जीग्रेटर (एए) प्रेमवर्क के जरिये 42,300 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। यह जानकारी इस क्षेत्र के लिए बने उद्योग संगठन सहमति ने दी।

इस अवधि के दौरान एए प्लेटफॉर्म के जरिये कुल 42.2 लाख ऋण वितरित किए गए थे। इस प्रेमवर्क से वितरित किए गए ऋणों का औसत आकार 1,00,237 रुपये था। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 24 की दूसरी छमाही में कुल 21.2 लाख ऋण वितरित किए गए थे और इनका मूल्य 22,100 करोड़ रुपये था। यह एए प्रेमवर्क की पूरे जीवनवधि में वितरित मूल्य और संख्या का करीब आधा है। ऋण देने वाली कंपनियों प्राहकों को कर्ज देने के लिए एए प्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसके तहत प्राहकों की ऑनबोर्डिंग, अंडरराइटिंग और निगरानी की सुविधा दी जाती है।

इस अवधि के दौरान एए प्लेटफॉर्म के जरिये कुल 42.2 लाख ऋण वितरित किए गए थे। इस प्रेमवर्क से वितरित किए गए ऋणों का औसत आकार 1,00,237 रुपये था। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 24 की दूसरी छमाही में कुल 21.2 लाख ऋण वितरित किए गए थे और इनका मूल्य 22,100 करोड़ रुपये था। यह एए प्रेमवर्क की पूरे जीवनवधि में वितरित मूल्य और संख्या का करीब आधा है। ऋण देने वाली कंपनियों प्राहकों को कर्ज देने के लिए एए प्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसके तहत प्राहकों की ऑनबोर्डिंग, अंडरराइटिंग और निगरानी की सुविधा दी जाती है।

एए प्रेमवर्क से 42 हजार करोड़ का ऋण वितरण

अजिंक्य कांवले
पुणे, 16 सितंबर

तीन साल पहले स्थापना से लेकर मार्च 2024 तक अकाउंट एग्जीग्रेटर (एए) प्रेमवर्क के जरिये 42,300 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। यह जानकारी इस क्षेत्र के लिए बने उद्योग संगठन सहमति ने दी।